A Infrastructure Limited

Regd. Office & Works: Hamirgarh - 311 025, Distt. Bhilwara (Rajasthan) Phone: 01482-286102, FAX: 01482-286104 Web Site: www.ainfrastructure.com, Email:cs@kanoria.org, CIN: L25191RJ1980PLC002077

Ref No.: AINFRA/2022-23

Date: 01.06.2022

The Manager (Listing & Corporate Services) Bombay Stock Exchange Ltd. Ground Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai Maharashtra -400001

BSE Code: 539620

Sub: – Audited Financial results for the quarter/year ended 31.03.2022- Publication in Newspaper

Dear Sir,

In terms of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed newspaper publication dated 01.06.2022 (Financial Express, English & Rajasthan Patrika, Hindi editions) of financial results for the quarter/year ended 31.03.2022.

Kindly take on record.

Thanking you.

Yours faithfully,

For A INFRASTRUCTURE LIMITED

Lokesh Mundra Company Secretary

FINANCIAL EXPRESS

Mahaan Foods Limited

Tel: 011-43107200, Fax: 011-43107250, E-mail: csmfl@mahaanfoods.com, Website: www.mahaanfoods.com CIN: L15419DL1987PLC350285							
Statement of Standalone Au	udited Financial Results for the Quarter and Yea	r ended 31-03-2022					
	(Amount	t in Rs. Lacs except EPS dat					
6	Quarter Ended	Year Ended					

	p		(Amount in Rs. Lacs except EPS data)								
S.		Quarter Ended Year Ended						Quarter Ended			Ended
No.	Particulars	31.03.2022 Audited	31.12.2021 Unaudited	31.03.2021 Audited	31.03.2022 Audited	31.03.202 Audited					
1.	Total income from operations	16.97	13.33	40.71	52.17	94.37					
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	7.99			7.99 5.97 (17.71)	(17.71)	20.19	20.19	7.92		
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax(after Exceptional and/or Extraordinary items)	7.99	5.97	(17.71)	20.19	7.92					
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	2.69	7.81	(13.94)	15.41	10.19					
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	2.69	7.81	(13.94)	15.41	10.19					
6.	Equity Share Capital	350.07	350.07	350.07	350.07	350.07					
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year			2	1473.82	1458,43					
8.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) - 1. Basic: 2. Diluted:	0.08 0.08	0.22 0.22	(0.40) (0.40)	0.44 0.44	0.29 0.29					

 The above financial results have been reviewed by the audit committee and taken on record by the board of directors in its meeting held on 30th May, 2022.

The above is an extract of the detailed format of Quarter and year ended Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full formats of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange website www.bseindia.com and the company's website www.mahaanfoods.com. For Mahaan Foods Limited

Place: New Delhi Date: 30/05/2022

Date: 30.05.2022

Place: New Delhi

Sanjeev Goyal Managing Director DIN:00221099

ALLIANCE INTEGRATED METALIKS LIMITED

(CIN: L65993DL1989PLC035409)

Regd. Office: 5th Floor, Unit No. 506, Building No. 57, Manjusha Building, Nehru Place, New Delhi -110019 Website: www.aiml.in | E-mail: alliance.intgd@rediffmail.com | Tel: +91-11-40517610

EXTRACT OF THE STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2022

SI.		- 9	Quarter Ende	r Ended Year Ended		nded
No.	Particulars	31.03.2022 (Audited)	31.12.2021 (Unaudited)	31.03.2021 (Audited)	31.03.2022 (Audited)	31.03.2021 (Audited)
1	Total Income from operations	2,312.93	2,300.10	3,658.27	7,920.94	7,432.56
2	Net Profit/ (Loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	(1,738.49)	(603.45)	(1,716.98)	(7,572.43)	(9,906.13)
3	Net Profit/ Loss for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	3 ,596.93	(603.45)	(1,716.98)	(2,432.01)	(9,906.13)
4	Net Profit for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	3 ,596.93	(603.45)	(1,716.98)	(2,458.53)	(9,906.13)
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax))	3,598.77	(603.45)	(1,711.97)	(2,456.69)	(9,901.12)
6	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 1/- each)	1,161.25	1,161.25	1,161.25	1,161.25	1,161.25
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year		-		(36,984.43)	(34,527.72)
8	Earnings per Share(of Rs. 1/- each) for continuing and discontinued operations)-					
	a Basic	30.99	(5.20)	(14.74)	(2.12)	(85.30)
Į,	b Diluted	30.99	(5.20)	(14.74)	(2.12)	(85.30)

- s above results were reviewed by the addit committee and approved by the board of birectors in their meeting held on May 50 2022 and the Statutory Auditors of the Company have carried out audit of said financial results for the guarter and year ended March 31, 2022. The figures for the quarter ended March 31, 2022 and corresponding quarter ended March 31, 2021 are derived balancing figures
- between audited figures for the full financial year ended March 31, 2022 and March 31, 2021 respectively and the unaudited figures of nine months ended December 31, 2021 and December 31, 2020 respectively. The above is an extract of the detailed audited financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of SEBI(Listing
- Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and full formats of the same are also available on the website of the Company www.aiml.in and the website of BSE i.e. www.bseindia.com. For Alliance Integrated Metaliks Limited

Daljit Singh Chahal Chairman Cum Wholetime Director DIN: 03331560

STANDARD CAPITAL MARKETS LIMITED CIN:L74899DL1987PLC027057

401- A, PP Towers, Netaji Subhash Place, PitamPura, Delhi-110034

E-mail: stancap.delhi@gmail.com website: www.stancap.co.in, Phone+91-11-011-47461199

Statement of Standarone Audited Financial Results for the Quarter and financial	rear ended 31st March, 2022
	(Rs. In Lakhs)

(Rs. In Lakh							
		Quarter Ende	Year	ended			
Particulars	(31/03/2022) (31/12/2021) (3		(31/03/2021)	(31/03/2021)	(31/03/2022		
	(Audited)	(Un-audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)		
I. Revenue from Operations							
Revenue from Operations							
(i) Interest Income	6.44	12.79	4.36	32.12	36.65		
(ii) Dividend Income	-	-	-	-			
(iii) Rental Income	-	-	-	-			
(iv) Fees and commission Income	-	-	-	-			
(v) Net gain on fair value changes	-	-	-	_			
(vi) Net gain on derecognition of financial							
instruments under amortised cost category		_	_	_			
(vii) Sale of products (including Excise Duty)		_	_	_			
(viii) Sale of services		_	_	_			
(ix) Other Revenue from operations		_	_	_			
Other Income	14.55	_	_	_	14.5		
Total Income	20.99	12.79	4.36	32.12	51.2		
II. Expenses	20.00	12.70	4.00	02.12	01.2		
(i) Cost of material consumed	_	_	_				
(ii) Purchases of Stock in Trade	_	_	_				
(iii) Changes in inventories of finished goods,	1	_	1				
work in progess and stock in trade							
iv) Employee Benefits Expense	1.63	2.06	2.47	9.54	7.6		
	5.90	5.53	1.07	10.07	16.9		
\	3.90	3.55	1.07	10.07	10.94		
(vi) Depreciation, depletion and amortisation expense	-	-		-			
(vii) Fees and commission expense	-	-		-			
(viii) Net loss on fair value changes	-	-		-			
(ix) Net loss on derecognition of financial instruments							
under amortised cost category	-	-		-			
(x) Impairment on financial instruments	0.00	0.46	00.04	70.07	47.0		
(xi) Other Expenses	9.63	2.46	69.94	73.87	17.24		
Total Expenses	17.16	10.05	73.48	93.48	41.8		
III. Profit/(Loss) before exceptional items and tax (I-II)	3.83	2.74	(69.12)	(61.36)	9.3		
IV. Exceptional items	- 0.00	0.74	7.70	7.70	0.07		
V. Profit/(Loss) before Tax (III-IV)	3.83	2.74	(76.82)	(69.06)	9.35		
VI. Tax Expense:	(0.00)		(4.00)	0.74			
(i) Current Tax	(0.36)	0.71	(1.28)	0.74	1.08		
(ii) Deferred Tax(Net)	-	-		-			
(iii) Provision for taxation	-		/== = A	- (00.00)			
VII. Net Profit/(Loss) for the period (V-VI)	4.19	2.03	(75.54)	(69.80)	8.27		
VIII. Other Comprehensive Income							
A. Items that will not be reclassified to profit or loss	-	-	-	-			
B. Items that will be reclassified to profit or loss.	-	-	-	-			
Total other Comprehensive income (A+B)	-	-	-	-			
IX. Total Comprehensive income (VII+VIII)	4.19	2.03	(75.54)	(69.80)	8.27		
A. Total profit/ loss attributable to:							
Equity Shareholders of the parent							
Non-Controlling Interest							
B. Total Comprehensive Income/ Loss attributable to:							
Equity Shareholders of the parent							
Non-Controlling Interest							
X. Paid-up Equity Share Capital Equity Shares of							
(Face Value Rs. 10/-)	400.01	400.01	400.01	400.01	400.01		
VI December of 04-4 Mench				/CE E5\	/57.00		

1- The Company is having only one business activity so the segment reporting under Ind AS-108 is not required. The Above result were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company in their meeting held on 30th May 2022. The Statutory Auditor of the Company have provided Audit Report for the same.

XI. Reserves as at 31st March

(a) Basic

(b) Diluted

Place: New Delhi

Date: 30th May, 2022

XII. Earnings Per Share (EPS) on Face Value Rs. 10/-

Figures of previous periods were re-grouped/re-classified wherever necessary to confirm to the periods of current periods. Indian Accounting Standards are applicable on the Company w.e.f 1st April 2019. On Behalf of the Board

0.11

0.11

0.05

0.05

(1.89)

(1.89)

For Standard Capital Markets Limited

(65.55)

(1.74)

(1.74)

Kishore Kargeti Director DIN:00095763



SRU STEELS LIMITED CIN: L17300DL1995PLC107286

Regd. Office: A-48, 1st Floor, Wazirpur Industrial Area, Delhi -110052 Statement of Audited Financial Results for the Quarter and Year ended on March 31, 2022

_					(F	ts. In lakhs
S. N.	Particulars	3 months ended March 31, 2022	Preceding 3 months ended December 31, 2021	Corresponding 3 months ended March 31, 2021	Current year ended March 31, 2022	Previous year ended March 31 2021
		Refer Note 3	Unaudited	Refer Note 3	Audited	Audited
1	Total income from operations (Net)	182.08	319.17	519.80	1,505,14	2,707.96
2	Net profit for the period (before tax, exceptional items and/or extraordinary items)	12,09	1.46	9.24	31.08	28.83
3	Net profit for the period before tax (after exceptional items and/or extraordinary items)	12.09	1.46	9.24	31.08	28.83
4	Net profit for the period after tax (after exceptional items and/or extraordinary items)	8.95	1.08	8.65	23.00	21.15
5	Total comprehensive income [comprising profit/loss for the period after tax and other comprehensive income (after tax)]	8.95	1.08	8.65	23.00	21.15
6	Paid up equity share capital (Face value of Re. 10/- each)	799.19	799.19	799.19	799.19	799.19
7	Reserve Excluding revaluation reserve as per Audited Balance Sheet				468.28	445.17
8	Earnings per share (Face value of Rs.10 each) (not annualised)					
	- Basic and Diluted earnings per share (in Rs.)	0.11	0.01	0.11	0.29	0.26

The above is an extract of the detailed format of Quarterly and Annual Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations 2015, as modified by Circular No. CIR/CFD/62/2016 dated 5th July,2016. The full format of the Quarterly and Annual Financial Results is available on the website of the Company at www.srusteels.in and on the website of the Stock exchanges viz, www.bseindia.com.

The above audited financial results are reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its

- meeting held on May 30, 2022. The standalone financial results are prepared in accordance with recognition and measurement principles of Indian
- Accounting Standards ('Ind AS') prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013. The financial results for the guarter ended March 31, 2022 and March 31, 2021 respectively represents the difference
- financial year. 5 The Company primarily business segment is based on principal business activities carried on by the Company. As per

between the audited figures in repsect of the full financial year and published figures upto third quarter of the respective

- Indian Accounting Standard 108 as notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as specified in Section 133 of the Comapnies Act 2013, the Company operates in one reportable business Segment i.e. Trading of Stainless Steels Business and primarily operating in India and hence, considered as single geographical segment.
- 6 The figures for the previous quarter and year have been regrouped/rearranged, whenever necessary, to confirm to the current period's classification

or SRU Steels Limited Apoorv Agarwal (Managing Director)

For and on behalf of the Board of Direcors

(Sanjay Kumar Kanoria)

Directo

DIN: 0006720

Date; - 30th May 2022 Place:- New Delhi

A Infrastructure Limited CIN: L25191RJ1980PLC002077

Regd. Office & Works : Hamirgarh - 311 025, Distt. Bhilwara (Rajasthan) Phone: 01482-286102, FAX: 01482-286104, Website: www.ainfrastructure.com, Email Id: cs@kanoria.org

EXTRACT OF STATEMENT OF STANDALONE AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED ON 31.03.2022 (Rs. in Lacs)

		Quarter Ende	ed	Year Ended		
Particulars	Audited	Unaudited	Audited	Aud	lited	
000000000000000000000000000000000000000	31.03.2022	31.12.2021	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	
Total Income from Operations (net)	8094.46	6104.43	6803.98	28647.29	26812.55	
Net Profit/(Loss) from Ordinary Activities (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	288.10	104.67	152.59	962.76	810.25	
Net Profit/(Loss) from Ordinary Activities before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	279.13	810.31	152.59	1659.43	805.75	
Net Profit/(Loss) for the period after tax after Exceptional and/or Extraordinary items#)	120.73	686.30	34.70	1239.20	620.67	
Total other Comprehensive Income for the period	(4.10)	(0.38)	(53.09)	(4.01)	(52.96)	
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Net Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	116.63	685.92	(18.39)	1,235.19	567.71	
Equity Share Capital (Face Value: Rs. 5/- each)	2132.29	2132.29	2132.29	2132.29	2132.29	
Reserve (Excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)			3.	5,224.35	4,031.80	
Earnings Per Share (before extraordinary items) (of 5/- each) Basic:	0.28	1.61	0.08	2.91	1.46	
Diluated:	0.28	1.61	0.08	2.91	1.46	
Earnings Per Share (after extraordinary items) (of 5/- each) Basic: Diluated:	0.28 0.28	1.61 1.61	0.08	2.91 2.91	1.46 1.46	

NOTES:

- The financial results of the Company have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind AS) notified under the Companies (India Accounting Standards) Rules, 2015 as amended. The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and have been approved by Board of Directors at its meeting held on
- 30th May, 2022. The Company has entered into an agreement on 25th June, 2018 as amended vide agreement Dt 20th December, 2018 for purchase of land
- and related assets of Distellary unit from M/s J.R. Organics Ltd. for a sum of Rs 26.50 crore. An advance of Rs. 25.70 Crore has been given by the company to M/s J.R. Organics Ltd. till 31st March, 2022 which has been included in Capital Work-in-Progress.
- The Board has recommended dividend @ 1% i.e Rs. 0.05 per equity share for the financial year 2021-22 subject to approval of shareholder at the Ensuing Annual General Meeting of the company.
- The Board has recommended dividend @ 5% on redeemable Preference Shares for the financial year 2021-22.
- The Board has Recommended the Bonus Issue of Equity Shares in the proportion of (One) Equity Share of Rs.5/- each for every (One) Equity Share of Rs. 5/- each held by the shareholders of the Company as on the record date.
- The above results of the company have been audited by the statutory auditors and have issued an unqualified audit opinion on the same. The figures for the quarter ended 31.03.2021 and 31.03.2022 are the balancing figures between the audited figures of the full financial year and the unaudited year to date figure upto the third quarter of the respective financial years. Also, the figures upto the end of the third quarter were only reviewed and not subjected to audit.
- The Company has only one operating segment i.e, A.C. Sheets and Pipes. Exceptional Item represent Gain on sale of Land situated at Aurngabad.
- 10. Figures for the previous period have been regrouped / reclassified wherever necessary, to conform to current period's classification.
- 11. The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Yearly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Yearly Financial Results are available on the Stock Exchange websites. (www.bseindia.com) and on the Company's website (www.ainfrastructure.com).

Place: New Delhi Date: 30.05.2022

ALGOQUANT FINTECH LIMITED (FORMERLY HINDUSTAN EVEREST TOOLS LTD.) Read. & H.O.: 4/11, 1st Floor, Asaf Ali Road, New Delhi-110002 (India) CIN: L74110DL1962PLC003634, Ph:+91-9910032394 E-mail: investors@algoquantfintech.com, Website: www.algoquantfintech.com

EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND FINANCIAL YEAR ENDED 31ST MARCH. 2022 (Do In Lakh Eveent new Chara Data)

Particulars Particulars	Quarter	Ended	Year Ended		
			31-03-2022 (Audited)		
Total income from operations	534.10	453.67	1710.33	554.16	
Net Profit /(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	54.50	344.99	316.42	296.69	
Net Profit /(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	54.50	344.99	316.42	441.78	
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	87.59	289.54	323.81	374.43	
Net Profit / (Loss) from discontinued operations for the period after ax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	-5.63	-0.49	19.08	-1.46	
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	421.46	289.05	1342.75	372.97	
Paid up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 2/- each)	160.72	160.72	160.72	160.72	
Other equity	0.00	0.00	3193.45	1850.70	
Earning Per Share from continuing operations (Not annualised)	8				
a) Basic (Rs.)	1.09	3.60	4.03	4.66	
(b) Diluted (Rs.)	1.09	3.60	4.03	4.66	
Earning/ (Loss) Per Share from discontinued operations (Not annualised)					
(a) Basic (Rs.)	(0.07)	(0.00)	0.24	-0.02	
(b) Diluted (Rs.)	(0.07)	(0.00)	0.24	-0.02	
Earning/ (Loss) Per Share from continuing and discontinued operations (Not annualised)					
(a) Basic (Rs.)	1.02	3.60	4.27	4.64	
(b) Diluted (Rs.)	1.02	3.60	4.27	4.64	

Notes:

Date: May 30, 2022

1. The above Statement of "Audited Financial Results" for the Quarter and Financial Year ended March 31, 2022 ("the Statement") has been reviewed by the audit committee and approved by the Board of Directors in its meeting held on May 30, 2022. The Statutory Auditors have issued an un-modified opinion on the Statement. 2. The financial results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles of Indian Accounting

accounting principles generally accepted in India. The above is an extract of the detailed format of Quarterly and Financial year ended Financial Result filed with Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the guarterly and year ended Financial Results are available on the Exchange website www.bseindia.com and the Company's website www.algoquantfintech.com.

Standards prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules framed thereunder and other

Algoquant Fintech Limited (formerly Hindustan Everest Tools Ltd.)

Devansh Gupta **Managing Director**

Form No. INC-26

(Pursuant to Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014) Before the Central Government

Through the office of the Regional Director, North Western Region, Ministry of Corporate Affairs, Ahmedabad In the matter of section 13 (4) of Companies Act, 2013 and Rule 30(5) (a) of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 and in the Matter of

MODERN MASTI PRIVATE LIMITED Having its Registered Office at 145, RAM NAGAR CIRCLE, SHASTRI NAGAR

HOUSING BOARD JAIPUR RJ 302016 IN

PUBLIC NOTICE Notice is hereby given to the General Public that MODERN MASTI PRIVATE

....Applicant Company

Reserve Price

LIMITED (the Company) proposes to make an Application to the Central Government through the office of the Regional Director, North Western Region, Ministry of Corporate Affairs Ahmedabad under section 13 of the Companies Act., 2013 read with Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 end d other applicable Provisions if any seeking confirmation/approval of alternation of Clause II of the Memorandum of Association of the Company in Terms of the Special Resolution passed in the Extra Ordinary General Meeting held on 25th May, 2022, to enable the Company to change its registered office from the State of Jaipur (RJ) to the state of Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of

registered office of the Company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing Investor Complaint Form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit, stating the nature of his/heir interest and grounds or opposition to the Regional Director, North Western Region, Ministry of Corporate Affairs, ROC Bhavan, Oppo Rupal Park Society, Behind Ankur Bus Stop, Naranpura, Ahmedabad-380013, Gujarat, with in 14 day from the date of publication of this notice, with a copy to the Applicant Company at its Registered Office address mentioned above. For MODERN MASTI PRIVATE LIMITED

Place: JAIPUR RAM PRAKASH MAHESHWARY DIN No. 01159822

Date: 26st May, 2022

Inspection date and time

NOTICE FOR SALE OF ASSETS

02rd June 2022 to 04th June 2022

(in between 10.30 AM to 05.00 PM)

RATANDEEP INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED (IN LIQUIDATION) (A company under liquidation process vide Hon'ble NCLT order dated January 31, 2022)

Sale of Assets under insolvency and Bankruptcy Code, 2016 Last Date to apply and submission 03rd June, 2022 of Documents Date and Time of E-Auction : 06th June, 2022, 11.00 am to 2.00 PM

Office of the company: C/o Ratandeep Jewellers, Shop No. 6, Upper Story Bhagat Singh Road, Muzaffarnagar, UP-251001.

Sale of Assets and Properties owned by Ratandeep Infrastructure Pvt. Ltd. (In Liquidation) forming part of Liquidation Estate by the Liquidator, appointed by the Hon'ble National Company Law Tribunal, Allahabad

The sale will be done by the undersigned through the e-auction platform

https://www.eauctions.co.in Basic Description of Assets and Properties for sale:

Asset/Location Address/Area

(INR)/EMD Land admeasuring 3542 sq. mtr. or 0.3542 Rs. 7 Crore Hect. Comprising of Tower No. S2 falling in (Rs. Seven Crores only)/ undivided and impartiable land bearing Khasra Rs. 70 Lakhs (Rs. Nos. 1470 (Area 0.0070 hect.), 1471 Seventy Lakhs only) (Area 0.2830 hect.) and 1484 (Area 0.0642 hect.) falling in GH Plot No. 2 in the Township known as "Jaipuria Sunrise Greens" Address: Bamheta, Ghaziabad The terms and conditions of E-Auction and other details of properties will be uploaded at the

Any serious and interested buyer can check out and submit a bid for the same. Contact person on behalf of E-Auction Agency (Linkstar): Mr. Dixit Prajapati

Email id-admin@eauctions.co.in, Mobile No.: +91 7874138237, Contact person on behalf of Liquidator: Adv. Snehal Sharda, Email id - irp.ratandeep@gmail.com; Mobile. No.: +91-8826016751

Terms and Conditions of the E-Auction are as under: This E-auction sale notice is for information of the intending Bidder(s), who intends to participate in the sale of property of the Corporate Debtor. Ratandeep Infrastructure Private Limited (in

Liquidation) through E-auction.

website i.e. http://www.eauctions.co.in on 01st June, 2022

E-auction will be conducted on "AS IS, WHATEVER THERE IS AND WITHOUT RECOURSE h service provider M/s Linkstar Infosys Private Limited. Contact Person Mr. Dix Prajapati 9870099713 (Auctioneer).

This E-auction notice shall be read in conjunction with the E-auction Process Information Document containing details of the property of the CD under E-auction, E-auction Bid Form & Declaration & Undertaking Form & General Terms and Conditions of the E-auction sale which

are available on the website of auctioneer. The Bid form to be filled by the intending bidder for participating in E-auction also provides the detailed terms and conditions of E-auction, and the intending bidder is expected to read the Bid Form carefully and submit the Bid Form with the EMD before participating in the E-auction.

Date: 31.05.2022

Alok Kumar Kuchhal, Liquidator IBBI Reg. No: IBBI/IPA-002/IP-N00114/2017-18/10284 Read. Address: C-154. Sector- 51. Noida-201301

KARVYIII FINANCE Corporate Office: Karvy Financial Services Limited 202-205, Enterprise Center,

2nd floor, Near Domestic Airport, Opp Hotel Airlink, Off Western Express Highway. Vile Parle (East), Mumbai -400 056 Email id - niraj.damani@karvy.com,

Phone - 9849998873 NOTICE U/S 13(2) OF SARFAESI ACT, 2002 BY RPAD / SPEED POST A.D. Date: - 9" May 2022

1a. M/S. Shri Krishnam Foods(Borrower) House No 642, Sector 10 A Gurugram, Haryana

- 1a. M/S. Shri Krishnam Foods, Nathu Sweets, Pataudi Road Kadipur Village, Near Sector 10 A Gurugram, Haryana -122001
- 2. RAM PAL YADAV(Co-Borrower) House No 642, Sector 10 Agurugram, Haryana
- 3. RAJ PAL YADAV (Co-Borrower) House No 642, Sector 10 Agurugram, Harvana 4. MADAN LAL YADAV (Co-Borrower) House No 642, Sector 10 Agurugram, Haryana
- PROMILA (Co-Borrower) House No 642, Sector 10 Agurugram, Haryana -122001
- Dear Sir/ Madam,

SUBJECT: NOTICE UNDER SECTION 13(2) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF THE FINANCIAL ASSETS AND ENCFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 (hereinafter referred to as "the said Act") We, Karvy Financial Services Ltd (KFSL), a company duly incorporated under the

provisions of Companies Act, 1956 having its corporate office at Karvy Financial Services Limited 202-205, Enterprise Center, 2nd floor, Near Domestic Airport, Opp Hotel Airlink, Off Western Express Highway, Vile Parle (East), Mumbai -400 056. have to address you:-That you addressee No. 1 to 5 being Borrower and Co-Borrower have availed a secured

- business Loan of Rs.22330000/- (Rupees Two crores twenty three lakhs thirty thousand only) in respect of Loan Account No. 700551 against property more fully described hereunder. The said loans were sanctioned on 30th December 2015 and accordingly you addressee no. 1 to 5 entered into Loan Agreement No. 700551 dated 30th December 2015. The said loan was granted for a period of 180 months against the security / mortgage of aforesaid property as security towards repayment of the said Loan due and payable under the said Loan agreement, original Title Deeds of the said property were deposited with us with an intention to create an equitable mortgage in our
- 2. That in consideration thereof, you had agreed and undertook to repay the said Loans with interest as per the repayment scheduled attached to the said Loan Agreement. In case of delay/default in payment of the loan installments and other amounts due and payable under the said Loan Agreement, you addressees had also agreed to pay other charges.

three lakhs thirty thousand only) was disbursed to you.

favour. Pursuant thereto, Loan for a sum of Rs.22330000/- (Rupees Two crores twenty

- We regret to state that you addressees as borrowers\Co-borrowers have committed defaults in payment of Loan installments and other amounts due and payment under the said Loan Agreement, and despite repeated requests reminders and follow up, have failed and / or neglected to clear the said dues. Consequent upon the defaults committed by you, Your Loan account no. 700551 has been classified as Non-Performing Assets (NPA) on 1st May 2019 in accordance with the directives relating to asset classification issued by the Reserve Bank of India.
- As on date 04/05/2022 an amount of Rs.22920272/- (Rupees Two crores twenty nine lakhs twenty thousand two hundred and seventy two Only) in respect of Loan Account No. 700551 are outstanding dues in your loan account therefore, we hereby give you notice under Section 13(2) of the SARFAESI Act, 2002 and call upon you to pay in full the aforesaid amount and discharge your liabilities to Karvy Financial Services Ltd. within 60 days from the date of this notice.

Loan Account No's	700551
Principle O/s.	20,385,080/-
Total Interest Due As On 4th May 2022	925,205/-
Charges Dues	1,609,986/-
Total Amount due and Outstanding As on 4th May 2022	22,920,272/-
We further give you notice that if you fail to make the said a	mount ac mentione

- We further give you notice that if you fail to make the said amount as mentioned above with interest till the date of realization of payment, we shall be free to exercise all or any of the rights and powers conferred on us under sub-section (4) of Section 13 of the Act, which inter-alia includes power to take possession of the secured asset and sell the same.
- 6. Your kind attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of the SARFAESI Act where under you can tender the entire amount of outstanding dues together with all costs, charges and expenses incurred by the Karvy Financial Services Ltd only before the date of publication of the notice for sale of the secured assets by public auction by inviting quotations tender from public or by private treaty. Please also note that if the entire amount of outstanding dues together with the costs, charges and expenses incurred by the Karvy Financial Services Ltd. is not tendered before publication of notice for sale of the secured assets by public auction, by inviting quotations, tender from public or by private treaty you may not be entitled to redeem the secured assets.
- 13 of the Act, 2002 you are prohibited and restrained from transferring the secured asset by way of sale, lease or otherwise without prior written consent of Karvy Financial Services Ltd. in writing . We may add that any non-compliance of the provisions of Section 13(13) of the Act, 2002 is an offence punishable under section 29 of the SARFAESI Act, 2002

7. That take note that after receipt of this notice, in terms of Sub-Section 13 of Section

- 8. Please note that this demand notice is issued without prejudice to any other rights or remedies which we may have including without limitation the right to make further demands in respect of sums owing to us by you. Please also take note that in case the amount realized through sale of the property is
- not sufficient to satisfy the claim made in this notice, Karvy Financial Services Ltd is entitled to recover the balance amount from you personally as per law. 10. You may take note that all the expenditure incurred in taking possession and sale of the secured asset shall be borne by you only.
- This is without prejudice to any other rights available to us under the said Act and / or any other law in force from time to time.

12. You are hereby notified to correspond with us only at the given addresses

- Karvy Financial Services Limited 202-205. Enterprise Center, 2nd floor, Near Domestic Airport, Opp Hotel Airlink, Off Western Express Highway, Vile Parle (East). Mumbai -400 056
- SCHEDULE- DESCRIPTIOEN OF THE PROPERTY

Property being Plot No. 642-P. Sector 10A, Measuring 297 sq. mtrs., in the Residential Colony Known as "Urban Estate" Gurugram, Haryana, Pincode-122 001. East: Park,

> Yours faithfully, For Karvy Financial Services Ltd.

financiale

(57.28)

0.21

0.21

Place: New Delhi

DIN: 06920376

FOR AND ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS

New Delhi

West: Road, North: Other Property, South: Road

Authorised Officer

हा है, उसमें भी 40 प्रतिशत र्गटन व 25 प्रतिशत विस्कॉस मिक्स र्टी मिलें बंद हो गई है। कई मिलों ने सूत

त होने से इसका सूत हिंगा है। रोजाना इसके

दामों में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में कपड़ा भी महंगा पड रहा है।

कॉटन मिल्स से जुड़ी जमीन के मामले में उपखण्ड मजिस्ट्रेट ने स्थगन 20 जून तक बढा दिया है। इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में व्यक्ति मकानों व अन्य का निर्माण कर रहे थे। अब किसी तरह का निर्माण कहीं नहीं कर सकेंगे। शास्त्रीनगर के प्रवीण जैन ने उपखण्ड मजिस्ट्रेट के यहां वाद किया। उस पर स्थगन जारी है। उधर इस मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने 6 जनों को 15 जुलाई तक अग्रिम जमानत दी है।

निर्यात को प्रोत्साहन देना

- एसएन मोदानी, चैयरमेन राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन

महंगा हो गया है। दामों में तेजी के कारण बाजार में कपड़े की मांग अचानक कम हो गई है। कॉटन, यार्न एवं ग्रे के दाम बढ़ने का असर आम लोगों के उपयोग में आने वाले कपड़े पर पड़ा है।



समर कैम्प में आयोजित



लेकर बहुत कुछ सिखने का मौका मिला है। इससे आत्म विश्वास भी

बढा है।

- दिव्या सावलानी

पाई के समर कैम्प में एंकरिंग कोर्स में हिस्सा



लेकर मंच संचालन करने का आत्म विश्वास बढा है। अब

कार्यक्रमों का अच्छे से संचालन कर सकुंगा।

- विजेन्द्र सिंह कानावत

हो रहे है। साथ ही बॉलीवुडए वेस्टर्न डांस के नए बैच 1 जून से शुरू होंगे। इन कोर्स के लिए जिन्होंने अभी तक पंजीयन नहीं करायाए वे अब भी पंजीयन करवा सकते है।

है वहां से आरएसी की टीम 40 र दूर शक्करगढ़ के बालिका में ठहरी हुई है। इससे क्षेत्र में संपूर्ण ानन और परिवहन पर अंकुश नहीं हा है। बजरी माफिया भी बेखीफ है।

20 तक बढ़ा स्थगन

भीलवाड़ा. चित्तौड़गढ़ रोड के महादेव

हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाए

हमारे आदरणीय अग्रज

श्रा गापाल स्वरुप वैष्णव ''पक्रज''

(वरिष्ठ सहायक पंचायत समिति मांडलगढ़- भीलवाड़ा) एवं जिला अध्यक्ष राजस्थान पंचायती राज मंत्रालयिक कर्मचारी संगठन के 32 वर्षीय गौरवमयी सेवानिवृत्ति की हार्दिक बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं।

शुभेच्युः — पवन कुमार शर्मा, राजेश काबरा, रामप्रकाश शर्मा, वैतन प्रकाश व्यास, प्रमोद कुमार जैन, ग्रोमा लाल तेली, दुर्गेश भवर सिंह, विकास पारीक, मानु प्रकाश प्रजापति, गौरव जीनगर, बलवीर सिंह, हंसात्यागी एवं समस्त मंत्रालियक कर्मचारी, भीलवाड्य

A Infrastructure Limited

CIN: L25191RJ1980PLC002077

Regd. Office & Works : Hamirgarh - 311 025, Distt. Bhilwara (Rajasthan) Phone : 01482-286102, FAX : 01482-286104, Website: www.ainfrastructure.com, Email Id: cs

EXTRACT OF STATEMENT OF STANDALONE AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED ON 31.03.2022

	(RS. III Lacs)						
Doublest	40.50	Quarter End	Year Ended				
Particulars	Audited	Unaudited	Audited	Audited			
The Name of the State of the St	31.03.2022	31.12.2021	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021		
Total Income from Operations (net)	8094.46	6104.43	6803.98	28647.29	26812.55		
Net Profit/(Loss) from Ordinary Activities (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	288.10	104.67	152.59	962.76	810.25		
Net Profit/(Loss) from Ordinary Activities before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	279.13	810.31	152.59	1659.43	805.75		
Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	120.73	686.30	34.70	1239.20	620.67		
Total other Comprehensive Income for the period	(4.10)	(0,38)	(53.09)	(4.01)	(52.96)		
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Net Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	116.63	685.92	(18.39)	1,235.19	567.71		
Equity Share Capital (Face Value: Rs. 5/- each)	2132.29	2132.29	2132.29	2132.29	2422.00		
Reserve (Excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	CY CO	3.23:1	2102.20	5,224.35	2132.29 4,031.80		
Earnings Per Share (before extraordinary items) (of 5/- each) Basic: Diluated: " Earnings Per Share (offerent and items)	0.28 0.28	1.61	0.08	2.91 2.91	1.46		
Earnings Per Share (after extraordinary items) (of 5/- each) Basic: Diluated:	0.28	1.61 1.61	0.08	2.91 2.91	1.46		

The financial results of the Company have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind AS) notified under the Companies (India Accounting Standards) Rules, 2015 as amended.

The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and have been approved by Board of Directors at its meeting held on

30th May, 2022.

30th May, 2022.

The Company has entered into an agreement on 25th June, 2018 as amended vide agreement Dt 20th December, 2018 for purchase of land and related assets of Distellary unit from Mrs J.R. Organics Ltd. for a sum of Rs 28.50 crore. An advance of Rs. 25.70 Crore has been given by the company to Mrs J.R. Organics Ltd. fill 31st March, 2022 which has been included in Capital Work-in-Progress.

The Board has recommended dividend @ 1% i.e Rs. 0.05 per equity share for the financial year 2021-22 subject to approval of shareholder at the Ensuing Annual General Meeting of the company.

The Board has recommended dividend @ 5% on redeemable Preference Shares for the financial year 2021-22.

The Board has Recommended the Bonus Issue of Equity Shares in the proportion of (One) Equity Share of Rs.5/- each for every (One) Equity Share of Rs. 5/- each for every (One)

reviewed and not subjected to audit.

8. The Company has only one operating segment i.e. A.C. Sheets and Pipes.

9. Exceptional Item represent Gain on sale of Land situated at Aurngabad.

10. Figures for the previous period have been regrouped / reclassified wherever necessary, to conform to current period's classification.

11. The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Yearly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Yearly Financial Results are available on the Stock Exchange websites. (www.bseinclia.com) and on the Company's website (www.ainfrastructure.com).

For and on behalf of the Board of Directors SdJ-

(Sanjay Kumar Kanoria) DIN: 00067203



